

## प्रेस नोट

### कंप्यूटराईज्ड लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का दीव में हुआ उद्घाटन

दीव:- दीव की आमजनता एवं लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन करनेवाले आवेदकों को सूचित किया जाता है कि 07 जून, 2014 से लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदक को कंप्यूटराईज्ड लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देना होगा। आज दिनांक 04/06/2014 को माननीय समाहर्ता एवं जिलाधीश, दीव ने रिबन काटकर इस कंप्यूटराईज्ड लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर कुल 05 आवेदकों ने टेस्ट दिया जिसमें से 04 सफल रहे। यह टेस्ट ट्रांसपोर्ट विभाग, दीव में प्रत्येक शनिवार (कार्यालय समय) को 10:00 बजे से 01.00 बजे तक लिया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस के प्रत्येक आवेदक से कंप्यूटर द्वारा 20 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से 12 प्रश्नों ( 60%) का सही उत्तर देने वाला ही लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मान्य होगा। इसमें आवेदक को एक प्रश्न के लिए 01 मिनट का समय दिया गया है। आवेदक को अपना लर्निंग टेस्ट देने हेतु तीनों भाषाओं अर्थात हिन्दी, अंग्रेजी एवं गुजराती में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। कंप्यूटर उस आवेदक से उसी भाषा में 20 प्रश्न पूछेगा। यह टेस्ट पूरी तरह से कंप्यूटराईज्ड है। कंप्यूटराईज्ड टेस्ट नहीं देना वाला आवेदक लर्निंग लाइसेंस पाने का हकदार नहीं होगा। आज के इस उद्घाटन अवसर पर दीव जिला के पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ, मुख्य अधिकारी, मामलतदार, उप प्रमुख, दीव जिला पंचायत एवं अन्य कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने में दीव जिला सूचना अधिकारी श्री जयेशभाई तथा आरटीओ विभाग के एमवीआई श्री संदीप तथा सभी कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।